

नरक
जाने के लिए
क्या करना
चाहिए



कुछ भी नहीं

क्या आप चकित हैं?

नरक में जाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हम वह काम पहले ही कर चुके हैं। परमेश्वर के सामने हम सब पापी और अपराधी हैं। हम दण्ड के योग्य हैं। (यहेज केल १८:४)

आजकल लोग परमेश्वर से नहीं डरते हैं क्योंकि यह नहीं जानते कि नरक कितना भयंकर है। वहां रोना और दांत पीसना होगा। (मत्ती १३:४९,५०) उसकी पीड़ा का घुआं युगानुयुग उठता रहेगा (प्रकाशितवाक्य १४:१०,११)

यह मत सोचिए कि लोगों को नरक में भेजनेवाला परमेश्वर कठोर है। वह नहीं चाहता है कि कोई नरक में जाए। परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता के अनुसार पाप को दण्ड मिलना ही चाहिए।

आप को वहां जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने आपके पापों के कारण दुख उठाया दण्ड पाया और क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। (१ पत्रस ३:१८: रोमियों ५:८)

अब यीशु मसीह आप के पापों के लिए अपना प्राण दिया यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए यीशु की आवश्यकता महसूस करते हैं तो अभी इसी समय यीशु को अपना निजी मुक्तिदाता समझकर स्वीकार कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो नरक में नहीं जाएंगे (यूहन्ना १:१२:५:२४) सी. सम्मर वेंप

इस परछे को पढ़ने के बाद अगर आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानकर स्वीकार करते हैं तो इस परछे को हमें वापिस भेजिये।

नाम :

पता :

शहर

पिन कोड :.....



FELLOWSHIP TRACT LEAGUE

P.O. BOX 164 • LEBANON, OH 45036

www.fellowshiptractleague.org © Tract 5500 (Hindi)

All tracts free as the Lord provides. Not to be sold.